

# Psa

## Chapter 147

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 תְּהִלָּה נֶאֱמָרָה לְעַיִן כִּי-אֱלֹהֵינוּ זְמִרָה טוֹב כִּי-וְהָהָלֵל 1  
स्तुति शोभनीय मनभावना क्योंकि हमारे-एलोहीम-को भजन-गाना उत्तम क्योंकि याह हलैलू  
H8416 H5000 H0430 H2167 H3050

यहोवा की प्रशंसा करो क्योंकि वह उत्तम है। हमारे परमेश्वर के प्रशंसा गीत गाओ। उसका गुणगान भला और सुखदायी है।

2 יְבֹנֵה יִשְׂרָאֵל נִדְחָה יְהוָה יְרוּשָׁלַם בּוֹנֵה 2  
वह-इकट्ठा-करता-है इस्राएल-के निकाले-हुओं-को यहोवा येरूशलेम-को बनानेवाला  
H3664 H3478 H3068 H3389 H1129

यहोवा ने येरूशलेम को बनाया है। परमेश्वर इस्राएली लोगों को वापस छुड़ाकर ले आया जिन्हें बंदी बनाया गया था।

3 לְעַצְבוֹתָם וְמִחֶבֶל לֵב לְשִׁבְרֵי חֶרֶף 3  
उनके-घावों-को और-बाँधनेवाला हृदय-में टूटे-हुओं-को चंगा-करनेवाला  
H6094 H2280 H7665 H7495

परमेश्वर उनके टूटे मनों को चँगा किया करता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है।

4 מוֹנֵה מִסְפָּר לְכֹלֵם לְפוֹכְבֵּים יְקָרָא 4  
वह-पुकारता-है नाम उन-सब-को तारों-की संख्या गिननेवाला  
H7121 H8034 H3605 H3556 H4557 H4487

परमेश्वर सितारों को गिनता है और हर एक तारे का नाम जानता है।

5 אֲדוֹנֵינוּ וְרַב-לְתַבִּינָתוֹ אֵין מִסְפָּר 5  
अंत नहीं उसकी-समझ-का सामर्थ्य और-बहुत हमारा-आदोनाई महान  
H4557 H0369 H8394 H0113

हमारा स्वामी अति महान है। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वे सीमाहीन बातें है जिनको वह जानता है।

6 מְעוֹרָר עֲנִיִּים יְהוָה מְשַׁפֵּיל עָרִי רְשָׁעִים 6  
भूमि तक दुष्टों-को नीचा-करनेवाला यहोवा नघों-को सँभालनेवाला  
H0776 H5704 H7563 H8213 H3068 H6035

यहोवा दीन जन को सहारा देता है। किन्तु वह दुष्ट को लज्जित किया करता है।

7 עָנּוּ לְיְהוָה זְמִרָה בְּתוֹרָה לְאֱלֹהֵינוּ בְּכִנּוֹר 7  
वीणा-पर हमारे-एलोहीम-के-लिए भजन-गाओ धन्यवाद-के-साथ यहोवा-के-लिए गाओ  
H3658 H0430 H2167 H8426 H3068

यहोवा को धन्यवाद करो। हमारे परमेश्वर का गुणगान वीणा के संग करो।

8 הַמְכֹּתָה הַשָּׁמַיִם בְּעָבִים הַמְזַמְּיחַ לְאָרֶץ מִטָּר 8  
घास पहाड़ों-पर उगानेवाला वर्षा पृथ्वी-के-लिए तैयार-करनेवाला बादलों-से आकाश-को ढाँकनेवाला  
H2022 H6779 H4306 H0776 H5645 H8064 H3680

परमेश्वर मेघों से अम्बर को भरता है। परमेश्वर धरती के लिये वर्षा करता है। परमेश्वर पहाड़ों पर घास उगाता है।

9 נֹתַן לְבַהֲמָה לֶבְנֵי עֹרֹב אֶשֶׁר יְקָרָא 9  
देनेवाला पशु-को उसका-भोजन कौवे-के बच्चों-को जो पुकारते-हैं  
H7121 H6158 H3899 H0929 H5414

परमेश्वर पशुओं को चारा देता है, छोटी चिड़ियों को चुग्गा देता है।

10  
 וְרָצָה: וְהָאִישׁ בְּשֹׁנְקֵי לֹא- יַחַפֵּץ הַצֹּטוֹס בְּנִבְוֹתָ לֹא 10  
 वह-चाहता-है मनुष्य-की जाँघों-में न वह-प्रसन्न-होता घोड़े-के बल-में नहीं  
 H7521 H0376 H7785 H3808 H1369 H3808

उनको युद्ध के घोड़े और शक्तिशाली सैनिक नहीं भाते हैं।

11  
 לְחַסְדֶּיךָ: הַמְּיֻחָלִים אֶת- יְרֵאָיו אֶת- יְהוָה רוֹצֵהּ 11  
 उसकी-करुणा-पर आशा-रखनेवालों-में - अपने-डरनेवालों-में - यहोवा प्रसन्न-होता-है  
 H3176 H0853 H3373 H0853 H3068 H7521

यहोवा उन लोगों से प्रसन्न रहता है। जो उसकी आराधना करते हैं। यहोवा प्रसन्न हैं, ऐसे उन लोगों से जिनकी आस्था उसके सच्चे प्रेम में है।

12  
 צִיּוֹן: אֱלֹהֵיךָ הַלְלִי יְהוָה אֶת- יְרוּשָׁלַם שְׁבַחֲתִי 12  
 सिव्योन अपने-एलोहीम-की स्तुति-कर यहोवा-की - येरूशालेम स्तुति-कर  
 H6726 H0430 H3068 H0853 H3389

हे यरूशालेम, यहोवा के गुण गाओ! सिव्योन, अपने परमेश्वर की प्रशंसा करो!

13  
 בְּקִרְבֶּיךָ: בְּנִיךָ בְּרַחֵם שְׁעָרֶיךָ בְּרִיּוֹתַי חֹק כִּי- 13  
 तेरे-बीच-में तेरी-संतान-को उसने-आशीष-दी तेरे-फाटकों-की अर्गलों-को उसने-दृढ़-किया क्योंकि  
 H7130 H1288 H8179 H1280 H2388

हे यरूशालेम, तेरे फाटकों को परमेश्वर सुदृढ़ करता है। तेरे नगर के लोगों को परमेश्वर आशीष देता है।

14  
 יְשׁוּבֵיךָ: הַשָּׁמַיִם הַלְּבָב שְׁלֹמֶה נְבוּלָה הַשָּׁמַיִם- 14  
 वह-तुझे-तृप्त-करता-है गेहूँ-की चर्बी-से शान्ति तेरी-सीमाओं-में रखनेवाला  
 H7646 H2406 H2459 H7965 H1366

परमेश्वर तेरे देश में शान्ति को लाया है। सो युद्ध में शत्रुओं ने तेरा अन्न नहीं लूटा। तेरे पास खाने को बहुत अन्न है।

15  
 דְּבָרֶיךָ: יְרוּחַ מְהֵרָה עַד- אֶרֶץ אֲמַרְתָּ הַשְׁלִחַ 15  
 उसका-वचन दौड़ता-है शीघ्रता-से तक पृथ्वी-पर अपना-वचन भेजनेवाला  
 H1697 H7323 H4120 H5704 H0776 H7971

परमेश्वर धरती को आदेश देता है, और वह तत्काल पालन करती है।

16  
 יְפֹרֵךְ: כְּאֶפֶר כְּפֹר כְּצֶמֶר שְׁלֹג הַגִּתָּן 16  
 वह-बिखेरता-है राख-के-समान पाला ऊन-के-समान हिम देनेवाला  
 H6340 H0665 H6785 H7950 H5414

परमेश्वर पाला गिराता जब तक धरातल वैसा श्वेत नहीं होता जाता जैसा उजला ऊन होता है। परमेश्वर तुषार की वर्षा करता है, जो हवा के साथ धूल सी उड़ती है।

17  
 יַעֲמֵד: מִי קָרְתָּ לְפָנַי כְּפָתִים קָרְתָּ מְשַׁלֵּיךָ 17  
 ठहर-सकता-है कौन उसकी-ठंड-के सामने टुकड़ों-के-समान उसका-बर्फ फेंकनेवाला  
 H5975 H4310 H7135 H6440 H7140 H7993

परमेश्वर हिम शिलाएँ गगन से गिराता है। कोई व्यक्ति उस शीत को सह नहीं पाता है।

18  
 מַיִם: יְזָלוּ רִחוּ וְיָשַׁב וַיִּמְסָם דְּבָרֶיךָ יִשְׁלַח 18  
 जल बहते-हैं अपनी-वायु वह-बहाता-है और-पिघलाता-है-उन्हें अपना-वचन वह-भेजता-है  
 H4325 H5140 H7307 H5380 H4529 H1697 H7971

फिर परमेश्वर दूसरी आज्ञा देता है, और गर्म हवाएँ फिर बहने लग जाती हैं। बर्फ पिघलने लगती, और जल बहने लग जाता है।

19  
 לְיִשְׂרָאֵל: וּמִשְׁפָּטָיו חֲקוּ לְיַעֲקֹב (דְּבָרֶיךָ) דְּבָרוֹן מְנַיֵד 19  
 इस्राएल-को और-उसके-नियम उसकी-विधियाँ याकूब-को (उसके-वचन) [उसके-वचन] बतानेवाला  
 H3478 H4941 H2706 H3290 H1697 H1697 H5046

परमेश्वर ने निज आदेश याकूब को (इस्राएल को) दिये थे। परमेश्वर ने इस्राएल को निज विधी का विधान और नियमों को दिया।

יָהּ :      הַלְלוּ-      יָדְעוּם      בְּל-      וּמִשְׁפָּטִים      גּוֹי      לְכָל-      וְכֵן      עָשָׂה      אֵל      20  
याह      हलेलू      वे-जानते-हैं-उन्हें      न      और-नियम      जाति-के-लिए      किसी      ऐसा      उसने-किया      नहीं  
[H3050](#)      [H3045](#)      [H1077](#)      [H4941](#)      [H3605](#)      [H3808](#)

| यहोवा ने किसी अन्य राष्ट्र के हेतु ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने अपने नियमों को, किसी अन्य जाति को नहीं सिखाया। यहोवा का यश गाओ।